

## झारखंड निर्मित नकली गोल्ड नामक विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त



Publish Date: Sat, 06 Mar 2021 07:51 AM (IST) Author: Jagran

राउरकेला आबकारी विभाग की टीम ने ब्राह्मणीतरंग थाना अंतर्गत जड़ाकुदर गांव में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में झारखंड निर्मित नकली गोल्ड नामक विदेशी शराब बरामद किया।

जागरण संवाददाता, राउरकेला : राउरकेला आबकारी विभाग की टीम ने ब्राह्मणीतरंग थाना अंतर्गत जड़ाकुदर गांव में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में झारखंड निर्मित नकली गोल्ड नामक विदेशी शराब बरामद किया। इस कारोबार से जुड़े जल्दा निवासी अनिल कुमार साहू, प्रमोद कुमार सान्याल सहित जड़ाकुदर निवासी राएना होरो को गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल से एक मारुति कार, 140 कार्टून नकली विदेशी शराब, आरएस व अन्य नामी विदेशी शराब की बोतलें, ओडिशा आबकारी विभाग के स्टिकर सहित पंचिंग मशीन आबकारी टीम द्वारा जब्त की गई है। आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से जेल भेजा गया है।

शुक्रवार को उदितनगर स्थित आबकारी कार्यालय में मीडिया को जानकारी देते हुए डीएसपी अरुण कुमार पाढ़ी ने बताया कि सूचना मिली थी कि झारखंड की नकली गोल्ड विदेशी शराब बड़ी मात्रा में लाकर ब्राह्मणीतरंग थाना अंतर्गत जड़ाकुदर में इसे कुछ लोग ब्रांडेड शराब की बोतल में भर कर उसमें आबकारी की सील लगाकर राउरकेला तथा इसके आसपास अंचलों में बेचते थे। नकली शराब को कम कीमत में लाकर असली ब्रांडेड बोतल में भरकर ऊंचे दाम पर इसे बेचते थे। गुरुवार की रात संबंधित लोगों को पकड़ने के लिए टीम जड़ाकुदर में घात लगाई थी। शुक्रवार की सुबह जड़ाकुदर में उनके ठिकाने पर छापेमारी कर वहां से एक मारुति कार, 140 कार्टून (1680 बोतल में बंद 1260 लीटर) शराब बरामद की गई। गिरफ्तार तीनों आरोपी जेल भेज दिए गए हैं।

लॉक डाउन के दौरान हुए थे गिरफ्तार : कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के दौरान भी ये तीनों नकली विदेशी गोल्ड शराब तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। जेल से जमानत पर रिहा होकर फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया था।

नकली और असली में फर्क करना मुश्किल : डीएसपी अरुण कुमार पाढ़ी ने बताया कि नकली विदेशी शराब को असली विदेशी शराब की बोतल में भरकर इस तरह से पैक किया जाता था कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल है। शराब खरीदने के दौरान ब्रांडेड शराब की बोतल को गौर से देखने पर ही हल्का फर्क पता चलता है। नही तो इस नकली और असली में फर्क कोई जल्दी नही पकड़ सकता है।

होली में बड़ी खेप बाजार में खपाने की थी जुगत : इस साल होली में उक्त नकली विदेशी शराब को बाजार में बड़े पैमाने पर खपाने की फिराक में ये तीनों शराब तस्कर थे। इससे पहले ही आबकारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसके लिए तस्कर छह माह पूर्व ही इसकी तैयारी कर लिए थे।

Source: <https://www.jagran.com/odisha/rourkela-three-smugglers-arrested-for-selling-branded-liquor-by-bringing-fake-foreign-liquor-from-jharkhand-21433587.html>